

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 जून 2016—ज्येष्ठ 14, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये संलग्न सूची अनुसार तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. तहसील एवं जिला स्तर की अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, तहसीलवार की सूची

मौसम खरीफ वर्ष 2016-2017 500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की तहसीलवार सूची

जिला (1)	तहसील (2)	ज्वार (3)	कोदो-कुटकी (4)	मूंगफली (5)	तिल (6)	कपास (7)
मुरैना	जौरा	-	-	-	तिल	-
	पोरसा	-	-	-	तिल	-
	सबलगढ़	-	-	-	तिल	-
	कैलारस	-	-	-	तिल	-
ग्वालियर	ग्वालियर	ज्वार	-	-	तिल	-
	डबरा	ज्वार	-	-	तिल	-
	भितरवार	-	-	-	तिल	-
	चिनोर	-	-	-	तिल	-
	घाटीगांव	ज्वार	-	-	तिल	-
दतिया	दतिया	-	-	मूंगफली	तिल	-
	सेवड़ा	ज्वार	-	-	तिल	-
	ईन्दरगढ़	-	-	-	तिल	-
	भाण्डेर	-	-	-	तिल	-
	बढौनी	-	-	-	तिल	-
शिवपुरी	पोहरी	-	-	मूंगफली	तिल	-
	शिवपुरी	-	-	मूंगफली	तिल	-
	नरवर	-	-	मूंगफली	तिल	-
	करैरा	-	-	मूंगफली	तिल	-
	कोलारस	-	-	-	-	-
	पिछोर	-	-	मूंगफली	तिल	-
	खनियाधाना	-	-	मूंगफली	तिल	-
बैराड	-	-	मूंगफली	तिल	-	
पन्ना	अजयगढ़	ज्वार	-	-	तिल	-
	पन्ना	-	-	-	तिल	-
	गुन्नौर	-	-	-	तिल	-
	पवई	-	-	-	तिल	-
	शाहनगर	-	-	-	तिल	-
	रैपुरा	-	-	-	तिल	-
	अमनगंज	-	-	-	तिल	-
	देवेन्द्रनगर	-	-	-	तिल	-
सिमरिया	-	-	-	तिल	-	
सतना	रघुराजनगर	-	-	-	तिल	-
	नागौद	-	-	-	तिल	-
	मैहर	-	-	-	तिल	-
	मझगवां	ज्वार	-	-	तिल	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	सिरमोर	ज्वार	-	-	-	-
	मउगंज	ज्वार	-	-	-	-
	हनुमना	ज्वार	कोदो-कुटकी	-	तिल	-
	त्योंथर	ज्वार	-	-	-	-
	मनगवां	ज्वार	-	-	-	-
	जवा	ज्वार	-	-	-	-
	नईगढ़	ज्वार	-	-	-	-
उज्जैन	उज्जैन	-	-	-	-	-
खरगोन	गोगावा	ज्वार	-	-	-	कपास
	महेश्वर	-	-	-	-	कपास
	बडवाह	-	-	-	-	कपास
	कसरावद	ज्वार	-	-	-	कपास
	खरगोन	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
	भीकनगांव	ज्वार	-	-	-	कपास
	सैगांव	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
	भगवानपुर	ज्वार	-	-	-	कपास
झिरन्या	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास	
रायसेन	रायसेन	-	-	-	-	-
	गैरतगंज	-	-	-	-	-
	बैगमगंज	-	-	-	-	-
	गौहरगंज	-	-	-	-	-
	बरैली	-	-	-	-	-
	सिलवानी	-	-	-	-	-
	उदयपुरा	-	-	-	-	-
	ब्राडी	-	-	-	-	-
	सुल्तानपुर	-	-	-	-	-
मंडला	निवास	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	मण्डला	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	बिछिया	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	नैनपर	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	नारायणगंज	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	घुघरी	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	-	-	मूंगफली	-	-
	तामिया	ज्वार	कोदो-कुटकी	-	-	-
	परासिया	ज्वार	-	-	-	-
	जुन्नारदेव	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	-	-
	अमरवाडा	ज्वार	-	मूंगफली	-	-
	चौरई	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	सौसर	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
	पाण्डुर्णा	ज्वार	-	मूंगफली	तिल	कपास
	बिछुआ	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
	उमरेठ	-	-	मूंगफली	-	-
	मोहखेड	-	-	मूंगफली	-	-
	हरई	-	कोदो-कुटकी	मूंगफली	-	-
	चांद	-	-	मूंगफली	-	-
अलीराजपुर	अलीराजपुर	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
	भाभरा	-	-	-	-	कपास
	कट्टीवाडा	ज्वार	-	मूंगफली	-	-
	सोंडवा	ज्वार	-	मूंगफली	-	कपास
डिंडोरी	डिण्डोरी	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	शाहपुरा	-	कोदो-कुटकी	-	-	-
	बजाग	-	कोदो-कुटकी	-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, तहसीलवार की सूची

मौसम रबी वर्ष 2016-2017 500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की तहसीलवार सूची

जिला (1)	तहसील (2)	अलसी (3)
सतना	रामनगर	अलसी
मंडला	निवास	अलसी
	बिछिया	अलसी
	नैनपुर	अलसी
	घुघरी	अलसी
डिंडोरी	डिण्डोरी	अलसी
	शाहपुरा	अलसी
	बजाग	अलसी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची

मौसम खरीफ

वर्ष 2016-2017

क्रमांक (1)	जिला (2)	मूंग (3)	उड़द (4)
1	भोपाल	मूंग	-
2	शिवपुरी	मूंग	उड़द
3	अशोकनगर	-	उड़द
4	नरसिंहपुर	मूंग	उड़द
5	विदिशा	मूंग	उड़द

(1)	(2)	(3)	(4)
6	उज्जैन	-	उड़द
7	डिंडोरी	-	उड़द
8	पन्ना	मूंग	उड़द
9	छतरपुर	मूंग	उड़द
10	छिन्दवाड़ा	मूंग	उड़द
11	गुना	-	उड़द
12	अलीराजपुर	-	उड़द
13	मंडला	-	उड़द
14	खरगौन	मूंग	उड़द
15	रायसेन	मूंग	उड़द
16	दतिया	मूंग	उड़द

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार, जिलों की सूची

मौसम रबी

वर्ष 2016-2017

क्रमांक (1)	जिला (2)	मसूर (3)
1	भोपाल	मसूर
2	शिवपुरी	मसूर
3	अशोकनगर	मसूर
4	नरसिंहपुर	मसूर
5	विदिशा	मसूर
6	उज्जैन	मसूर
7	डिंडोरी	मसूर
8	पन्ना	मसूर
9	छतरपुर	मसूर
10	मंडला	मसूर
11	रायसेन	मसूर
12	दतिया	मसूर